

- विषय** - पत्र-लेखन क्रियाकलाप  
**स्थान** - ओ.पी. जिंदल विद्यालय रायगढ़  
**उद्देश्य** - स्वच्छता अभियान हेतु जन-जागरण  
**दिनांक** - 16/09/2019

## प्रतिवेदन



दिनांक 20 अगस्त 2019 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित परिपत्र क्रमांक -40/2019 के परिपेक्ष्य स्वच्छ भारत के लिये स्वच्छता अभियान – स्वच्छता पखवाड़ा (1 सितम्बर से 15 सितम्बर 2019) के तहत ओ.पी. जिंदल विद्यालय रायगढ़ परिसर में पत्र- लेखन संबंधी निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्पन्न हुई ।

## परिचर्चा

दिनांक 21/08/2019 को विभिन्न कक्षाओं के सभी वर्गों में विद्यालय, घर, मुहल्ले तथा आसपास की सफाई व्यवस्था तथा रख-रखाव संबंधी परिचर्चा हुई । इस परिचर्चा में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने अपने सशक्त तर्कों के साथ विचार साझा किया । मुहल्ले एवं आसपास की सफाई से संबंधित जन-जागरुकता लाने हेतु क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र पर भी चर्चा हुई ।

## कक्षाकार्य

रचनात्मक लेखन कौशल एवं समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करने तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखने के लिये प्रेरित करने हेतु मुहल्ले की नियमित सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी, नगर-निगम को लिखे जाने वाले शिकायती / प्रार्थना पत्र का प्रारूप विद्यार्थियों को समझाया गया तत्पश्चात् विद्यार्थियों को पत्र का प्रारूप लिखित दस्तावेज के रूप में लिखवाया गया ।



## पुनरावृत्ति

विद्यालयीन परीक्षा अनुसूची के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा 2019 में उपरोक्त विषय पर पत्र-लेखन कौशल को रचनात्मक खंड में शामिल किया गया । विद्यार्थियों को पत्र के प्रारूप की पुनरावृत्ति करवाई गई ।



## परीक्षा प्रक्रिया

दिनांक 13/09/2019 को कक्षा पाँचवीं के हिंदी विषय का परीक्षा सम्पन्न हुआ, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य अधिकारी, नगर-निगम, रायगढ़ को अपने मुहल्ले की सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करवाने तथा व्यवस्था दुरुस्त करवाने हेतु पत्र लेखन प्रश्न हल किया गया।

सन्दर्भ क्रमांक : 758/OPJS/PC/2019-20

हिन्दी	रिमझिम	पाठ 1 से 6
	व्याकरण	पाठ 1 से 6, विलोम शब्द (11 से 20), पर्यायवाची शब्द (11 से 20), श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द (6 से 15), पठित गद्यांश य पद्यांश, अपठित गद्यांश य पद्यांश, चित्र वर्णन
	अनुच्छेद लेखन	वृक्ष लगाओ प्रदूषण भगाओ, पुस्तकालय, कंप्यूटर है निराला
	पत्र लेखन	अनौपचारिक पत्र – ग्रीष्मावकाश की जानकारी देते हुए अपने दादाजी / नानाजी को पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई के लिए पत्र लिखिए।
	क्रियाकलाप	श्रवण कौशल

इस प्रकार परिपत्र क्रमांक -40/2019 के तहत पत्र लेखन क्रियाकलाप सम्पन्न हुआ विद्यार्थियों को आसपास की सफाई रखने के लिये जन-जागरूकता लाने हेतु व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर प्रयास करने की शिक्षा दी गई।

